

प्रीमियर सर्जरी सेंटर रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के कथन

आपके पास अधिकार हैं जबकि एक रोगी चिकित्सा देखभाल प्राप्त इस स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के कर्मचारियों को पहचानता है। बदले में, वहाँ रहे हैं जिम्मेदारियों के लिए कुछ व्यवहार अपने भाग पर रोगी के रूप में। अधिकारों और जिम्मेदारियों का यह कथन सभी रोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है कम से कम एक स्थान में हमारी सुविधा में पोस्ट किया गया है।

अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

सही करने के लिए है, एक रोगी, रोगी प्रतिनिधि या किराए की

- अधिकार, रोगी आचरण और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी में एक भाषा और तरीके से रोगी, रोगी प्रतिनिधि या किराए की समझ कर सकते हैं प्राप्त होता है।
- सम्मान, विचार और गरिमा के साथ इलाज किया।
- उचित व्यक्तिगत गोपनीयता प्रदान किया।
- प्रकटीकरण और रिकॉर्ड अत्यंत गुप्त इलाज किया और अनुमोदन या जब रिलीज कानून द्वारा आवश्यक है को छोड़कर रिकॉर्ड जारी मना करने का मौका दिया।
- जब ऐसी भागीदारी चिकित्सा कारणों के लिए contraindicated है को छोड़कर उनके स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित फैसलों में भाग लेने का अवसर दिया।
- देखभाल में एक सुरक्षित सेटिंग प्राप्त करते हैं।
- दुर्व्यवहार, उपेक्षा या उत्पीड़न के सभी रूपों से मुक्त हो।
- अपने या अपने अधिकारों का प्रयोग भेदभाव या चिकित्सा उपचार या आवास, जाति, राष्ट्रीय मूल, धर्म, शारीरिक विकलांगता, या भुगतान के स्रोत की परवाह किए बिना निष्पक्ष पहुँच के साथ प्रतिशोध के अधीन किया जा रहा बिना।
- शिकायतें और शिकायत, प्रतिशोध बिना आवाज।
- जाना जाता डिग्री करने के लिए प्रदान की, निदान, मूल्यांकन, उपचार के विषय में जानकारी पूर्ण और जानते हैं कि जो सेवा प्रदान कर रहा है और जो देखभाल के लिए जिम्मेदार है। जब रोगी की चिकित्सा स्थिति यह अनुचित या असंभव बनाता

है, जानकारी रोगी द्वारा नामित एक व्यक्ति या एक कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के लिए प्रदान की जाती है।

- अधिकारों और संपत्ति और व्यक्तियों के अधिकार सहित, के लिए सम्मान का अभ्यास

ओआवाज उपचार के बारे में शिकायत या अर्थात (या परवाह किया जा करने के लिए विफल रहता है) से सुसज्जित.

ओहोना पूरी तरह से सूचित एक उपचार या प्रक्रिया और परिणाम की उम्मीद के बारे में पहले यह किया जाता है.

ओउचित न्यायालय की एक अदालत ने एक व्यक्ति रोगी राज्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के तहत अक्षम घोषित है, तो रोगी की ओर से कार्रवाई के लिए राज्य कानून के तहत नियुक्त किया है। अगर एक राज्य अदालत एक रोगी अक्षम घोषित नहीं है, किसी भी कानूनी राज्य कानून के अनुसार रोगी द्वारा नामित प्रतिनिधि राज्य कानून द्वारा अनुमति दी हद तक रोगी के अधिकारों का प्रयोग हो सकता है.

- कानून द्वारा अनुमत सीमा तक उपचार इंकार कर दिया और इस क्रिया के चिकित्सा परिणामों के बारे में सूचित किया.
- यदि चिकित्सा उपचार देने अपनी सहमति या ऐसे प्रायोगिक अनुसंधान में भाग लेने के लिए मना करने के लिए और प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए है पता है।
- प्राथमिक या विशेषता चिकित्सक या दंत चिकित्सक अन्य योग्य चिकित्सक या दंत चिकित्सक उपलब्ध हैं, तो परिवर्तन करने का अधिकार है।
- प्रश्न और अनुरोधों के लिए एक त्वरित और उचित प्रतिक्रिया।
- पता है कि क्या रोगी समर्थन सेवाओं सहित एक दुभाषिया उपलब्ध अगर वह या वह अंग्रेजी में बात नहीं है कि उपलब्ध हैं।
- चिकित्सा देखभाल के लिए शुल्क का एक उचित अनुमान, उपचार, करने से पहले अनुरोध प्राप्त करने और सुविधा मेडिकेयर असाइनमेंट दर स्वीकार करता है, अनुरोध पर और उपचार, करने से पहले पता है कि क्या।

- एक एक यथोचित स्पष्ट की प्रतिलिपि और समझ में आता, विस्तृत बिल प्राप्त और आरोपों की व्याख्या करने के लिए अनुरोध।
- अग्रिम निर्देशों बनानी चाहिए और स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए एक किराए की नियुक्ति करने के लिए उसकी ओर से हद तक पर निर्णय कानून द्वारा अनुमत और उसकी चिकित्सा रिकॉर्ड में प्लेसमेंट के लिए सुविधा के लिए एक प्रति उपलब्ध कराने।
- अग्रिम निर्देशों पर सुविधा नीति पता।
- जो आपके पास उसका स्वामित्व सुविधा में चिकित्सकों के नाम सूचित किया जाएगा।
- ठीक से credentialed और योग्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगी देखभाल प्रदान करना है।

एक रोगी, रोगी प्रतिनिधि या किराए की जिम्मेदार के लिए है

- उसे घर की सुविधा से परिवहन और उसके साथ 24 घंटे के लिए रहने के लिए एक जिम्मेदार वयस्क जब तक विशेष रूप से इस जिम्मेदारी से उसकी प्रदाता द्वारा छूट दी प्रदान।
- उसका या उसके ज्ञान, उसकी स्वास्थ्य के बारे में सही और पूरी जानकारी मौजूद शिकायतों, बीमारियों, hospitalizations, काउंटर उत्पादों और पूरक आहार, किसी भी एलर्जी या संवेदनशीलता, और करने के लिए अपने या अपने स्वास्थ्य से संबंधित अन्य मामलों सहित किसी भी दवाओं, अतीत का सबसे अच्छा करने के लिए उपलब्ध कराने के।
- उसकी बीमा द्वारा कवर नहीं किसी भी शुल्क के लिए व्यक्तिगत वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।
- उपचार योजना अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा सिफारिश की निम्नलिखित।
- सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्टाफ, साथ ही अन्य रोगियों सम्मानजनक हो।
- सूचना कि आप हमें एक टिकाऊ पावर ऑफ अटॉर्नी, किराए के स्वास्थ्य देखभाल, या अन्य अग्रिम निर्देश के बारे में पता करने की इच्छा की एक प्रति उपलब्ध कराने।

- अपने कार्यों, अगर वह इनकार कर उपचार या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
- उसके या उसकी स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता रिपोर्टिंग।
- अपने स्वास्थ्य की देखभाल प्रदाता करने के लिए कि क्या वह या वह एक contemplated कोर्स कार्रवाई और क्या उसे या उसके की उम्मीद है की comprehends रिपोर्टिंग।
- अपॉइंटमेंट रखने।

शिकायतें

यदि आप एक प्रश्न या अपने अधिकारों या जिम्मेदारियों के बारे में चिंता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। सर्जरी सेंटर पर सुविधा व्यवस्थापक से संपर्क करें मदद करने के लिए हमारे स्टाफ के किसी भी आप पूछ सकते हैं। या, आप 912-264-9029 को कॉल कर सकते हैं।

हम आपके सवाल का जवाब दे और अपनी चिंताओं को जवाब सहित उत्कृष्ट सेवा के साथ आप प्रदान करना चाहते हैं।

आप भी राज्य की लाइसेंसिंग एजेंसी से संपर्क करने के लिए चुन सकते हैं,
 स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासन के लिए एजेंसी
 2727 Mahan ड्राइव, Tallahassee, FL 32308
 1-888-419-3456

यदि आप चिकित्सा द्वारा कवर कर रहे हैं , आप चिकित्सा लोकपाल पर लाइन <http://www.medicare.gov/claims-and-appeals/medicare-rights/get-help/ombudsman.html> पर या 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) पर संपर्क करने के लिए चुन सकते हैं। मेडिकेयर लाभार्थी लोकपाल की भूमिका सुनिश्चित कि चिकित्सा लाभार्थियों आपको समझने के लिए अपने चिकित्सा विकल्प और मेडिकेयर अधिकारों और सुरक्षा लागू करने के लिए मदद और जानकारी प्राप्त करने के लिए है।